



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II-खण्ड 3-उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1296]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्टूबर 25, 2007/कार्तिक 3, 1929

No. 1296]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 25, 2007/KARTIKA 3, 1929

## पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अक्टूबर, 2007

का.आ. 1814(अ).—केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन), अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 718(अ) तारीख 3 मई, 2007 द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में, मैसर्स रिलायन्स गैस ट्रांसपोर्टेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा गुजरात राज्य में प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए काकीनाडा-हैदराबाद-उरान-अहमदाबाद पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी;

और, उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख 4 जून, 2007 को अथवा उससे पहले उपलब्ध करा दी गई थीं;

और पाइपलाइन बिछाने के संबंध में जनता की ओर से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और अननुज्ञात कर दिया गया है;

और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिये अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है;

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त, मैसर्स रिलायन्स गैस ट्रांसपोर्टेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, में निहित होगा।

## अनुसूची

तहसील : कामरेज	जिला : सूरत	राज्य : गुजरात			
ग्राम का नाम	सर्वे नंबर/ ब्लाक नं.	आर.ओ.यू. अर्जित करने के लिये क्षेत्रफल	हेक्टेयर	एयर	वर्ग मी.
1	2	3	4	5	
1. भादा	8	00	16	36	
	7	00	27	19	
	5	00	59	73	
	6	00	00	20	
	48	00	00	20	
	57	00	80	87	
	74	00	08	87	
	56	00	73	34	
	103	00	35	70	
	104	00	25	11	

[फा. सं. एल-14014/2/2007-जीपी]

एस.बी. मंडल, अवर सचिव

# **MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS** **NOTIFICATION**

New Delhi, 16th October, 2007

**S.O. 1814(E).**—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas number S.O. 718(E) dated 3rd May, 2007, issued under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land, specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying Kakinada-Hydrabad-Uran-Ahmedabad Gas pipeline for transportation of natural gas by M/s Reliance Gas Transportation Infrastructure Limited in the State of Gujarat;

And, whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public on or before 4th June, 2007;

And whereas, the objections received from the public to the laying of the pipeline have been considered and disallowed by the Competent Authority;

And whereas the Competent Authority has, under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Central Government;

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire the right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central

Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And, further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest, on the date of publication of the declaration, in M/s. Reliance Gas Transportation Infrastructure Limited free from all encumbrances.

## **SCHEDULE**

Tehsil : Kamrej		Distt. : Surat		State : Gujarat	
Name of the Village	Survey No./ Block No.	Area to be acquired for ROU			
		Hectare	Are	Sq.m.	
1	2	3	4	5	
1. Bhada	8	00	16	36	
	7	00	27	19	
	5	00	59	73	
	6	00	00	20	
	48	00	00	20	
	57	00	80	87	
	74	00	08	87	
	56	00	73	34	
	103	00	35	70	
	104	00	25	11	

[F.No.L-14014/2/2007-G.P.]

S. B. MANDAL, Under Secy.